



Geared for life

## BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works :  
20 K.M. Mathura Road, P.O. Box 328  
P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA  
Tel. : +91 (129) 4288888, Fax : +91 (129) 4288822-23  
E-mail : info@bglindia.com  
Corporate Identity Number : L29130HR1971PLC034365

**BGL/SEC/NSE/3/MAY 2018-2019**

**May 11, 2018**

**The Manager (Listing)**  
**National Stock Exchange of India Ltd**  
"Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C-1, G - Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai - 400051

**SYMBOL: BHARATGEAR**

**Sub: Published Notice of 1/18-19 Board Meeting**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Notice published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi Edition and "Jansatta" (Hindi) - Delhi Edition on 11<sup>th</sup> May, 2018 in relation to 1/18-19 Board Meeting of the Company scheduled to be held on 30<sup>th</sup> May, 2018.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Bharat Gears Limited**

  
**Prashant Khattry**  
**Head (Legal) & Company Secretary**

**Encl: As above**

**BGL/SEC/BSE/2/MAY 2018-2019**

**The Manager (Listing)**  
**BSE Limited**  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building  
PJ Towers, Dalal Street  
Fort, Mumbai - 400001

**STOCKCODE: 505688**



Mumbai Office : 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA  
Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax :+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com  
Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA  
Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651  
[www.bharatgears.com](http://www.bharatgears.com)

# India visit: EU FTA, defence coop top Dutch PM's agenda

The Netherlands is the fifth-largest source of FDI for India. Partnerships have already been established in sectors such as agriculture, life sciences and healthcare, ports and logistics, and renewable energy

HUMA SIDDIQUI  
New Delhi, May 10

**NEGOTIATIONS ON STALLED** free trade agreement between India and the European Union (EU), boosting economic cooperation and cooperation in other sectors, including defence and space, will top the agenda of Netherlands Prime Minister Mark Rutte when he visits New Delhi later this month.

With 20% of India's exports to Europe passing through the Netherlands, Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart will discuss the role of that country as India's 'Gateway to Europe'.

The visiting prime minister will be accompanied by a high level delegation comprising Sigrid Kaag (minister for foreign trade and development cooperation), Carola Schouten (deputy prime minister and minister of agriculture, nature and food quality), Cora van Nieuwenhuizen (minister of infrastructure and

water management) and Bruno Bruins (minister for medical care).

The two-day visit of Rutte commences on May 24. Prior to that, a Dutch delegation comprising government officials and representatives from various companies and institutions will arrive on May 22 and stay till May 25.

It may be noted that Modi visited the Netherlands last June. According to MEA officials, "The Netherlands is a leading foreign investor in India as a large number of Dutch companies are active here. Similarly, a significant number of Indian companies are based in the Netherlands."

"The state visit will further boost the economic and political cooperation between India and the Netherlands while focusing on the existing and potential partnerships in agriculture, water management, healthcare, innovation and start-ups among several other sectors," said an official state-



Mark Rutte



Narendra Modi

ment from the embassy of Netherlands in New Delhi.

Both the countries are expected to seek expansion of cooperation in various areas such as agriculture, food processing, infrastructure, healthcare, science & technology and cybersecurity.

Talks about the free trade agreement between India and the EU will be an important part of the discussion. The proposed FTA has long been delayed. Negotiations will also be on the proposed BTIA, which, though launched in 2007, has faced several obstacles, as India and the European nation have major differences on key issues like intellectual property rights, duty cut in automobile and spirits, etc.

The Netherlands is the fifth-largest source of FDI for India. Partnerships have

already been established in sectors such as agriculture, life sciences and healthcare, ports and logistics and renewable energy.

According to the India-Netherlands joint communique released at the end of Modi's visit to Hague in June 2017, a key ingredient in Indo-Dutch cooperation is the use of innovation and technology to improve water and waste management, thus contributing to the 'Clean India' campaign.

Dutch agro-experts are involved in exploring ways to shift to crops that need less water and generate higher income for the farmer. A consortium of Dutch fruit chain companies is already working in hilly regions.

Bilateral cooperation has flourished in the space sector as well.

# Hotel, restaurant services provided to SEZ units taxable under GST: AAR

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, May 10

**HOTEL OR RESTAURANT** services provided to SEZ developers or units will not be treated as 'zero-rated' supplies and will be taxable under the GST regime, the Authority for Advance Ruling (AAR) has said.

In an application filed before the Karnataka bench of the AAR, the applicant had sought to clarify whether hotel accommodation and restaurant services provided by them, within the

premises of the hotel, to employees and guests of SEZ units be treated as supply of goods and services.

"The hotel accommodation and restaurant services being provided by the applicant, within the premises of the hotel, to the employees and guests of SEZ units, cannot be treated as supply of goods and services to SEZ units in Karnataka and hence they are the intra-state supply and are taxable accordingly," the AAR order said.

Experts said GST laws did not

specify which goods and services would be considered as "authorised operations" which created confusion about their taxability. According to Section 16 of the Integrated GST (IGST) Act, supply of goods or services or both to a special economic zone (SEZ) developer or unit is treated as 'zero-rated supply'.

Besides, Section 12 of the IGST Act defines the 'place of supply' of services by way of lodging accommodation by a hotel or for providing restaurant and catering services as the location

where the services are actually performed. The rendition of services of restaurant, short-term accommodation and banqueting or conferencing cannot be said to have been 'imported or procured' into SEZ unit or developer and therefore the supply is intra-state supply, it said.

AMRG & Associates partner Rajat Mohan said this ruling lays down that supplies made for 'authorised operations' shall only be treated as supplies to SEZ developer/SEZ unit and would be zero-rated.

# US firms yet to show interest in AI



PRESS TRUST OF INDIA  
Mumbai, May 10

**THERE IS A** great deal of interest for the Air India disinvestment initiative, civil aviation secretary RN Choubey said on Thursday, amid the deadline for submission of preliminary bids ending this month.

The last date for submission of expression of interest (EOI) for the proposed 76% stake sale in the debt-laden airline ends on May 31. Earlier this month, the government had come out with clarifications related to the disinvestment move.

"There is a great deal of interest for Air India," Choubey said at the US-India Aviation Summit which commenced here on Thursday. He said no American carrier had expressed any formal interest

for Air India.

The divestment includes profit-making Air India Express and AISATS, an equal joint venture between the national carrier and Singapore-based SATS.

The last date for submis-

sion of EOIs for Air India disinvestment had been extended to May 31 from the earlier deadline of May 14. Qualified bidders would now be known on June 15, whereas the earlier date was May 29.

Starting the disinvestment process of the debt-laden national carrier, a preliminary information memorandum

for the proposed sale of up to 76% stake in Air India, along with the management control to private entities, was issued on March 28.

The government also made it clear that it would have the rights of a "minority shareholder" with 24% stake in the carrier after disinvestment.

**INDRAPRASTHA GAS LIMITED**  
IGL Bhawan, 4, Community Centre, Sector-9, R. K. Puram, New Delhi-110 022  
Ph.: 46074607 Fax: 26171863. Email: investor@igl.co.in. Website: www.iglonline.net  
CIN: L22201DL1998PLC097614

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 23<sup>rd</sup> May, 2018, inter-alia to consider and approve standalone and consolidated Audited Financial Results for the quarter ended 31<sup>st</sup> March, 2018 and also to consider recommendation of dividend for the Financial Year 2017-18, subject to approval of Shareholders in the Annual General Meeting.

The Trading Window of the Company shall remain closed w.e.f. May 16, 2018 till the expiry of 48 hours after the Audited Financial Results are made public on May 23, 2018.

Date: 10.05.2018  
Place: New Delhi  
S. K. Jain  
(Company Secretary)

**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.**  
(A MAJOR LISTED COMPANY OF GOVT. OF INDIA)  
(CIN: L63011DL1988OIC02915)  
Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi-110 076  
Phone: 91-11-41673000/41655396; Fax: 91-11-41673112  
Email: investorrelations@concorindia.com; Website: www.concorindia.com

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") read with rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the company hereby take approval of the members of the company by way of Postal Ballot which also includes voting by electronic means (e-voting). The purpose of passing the Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 04.05.2018 viz. (i) Sub-division of the Company's One Equity Share of Rs.10/- (Rupees Ten) each into Two Equity Shares of face value of Rs.5/- (Rupees Five) each; and (ii) To amend the Capital Clause in the Memorandum of Association of the Company.

The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope has been dispatched to all the Members through Speed Post/Registered Post at their registered address or to their e-mail addresses registered with the Company/ Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent, as the case may be. The same is also available on website: Company's website: www.concorindia.com; SEI Ltd: www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Ltd: www.nseindia.com & National Securities Depository Limited (NSDL): www.evoting.nsdl.com. The Board of Directors has appointed Mr. Rakesh Kumar, Practising Company Secretary, as Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process in fair and transparent manner and in accordance with the applicable guidelines.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on the above mentioned resolutions in the Postal Ballot Notice through NSDL. The details pursuant to the Provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder are as under:

- A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories on 04.05.2018 (cut-off date) shall be entitled to vote on the resolution proposed to be passed by the postal ballot/ e-voting. A person whose name is not recorded in the Register of Members as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
- Date of completion of dispatch of Notices: 10.05.2018.
- Date and time of commencement of e-voting: 14.05.2018 (09:00 hrs)
- Date and time of end of voting/e-voting: 12.06.2018 (17:00 hrs)
- Voting through electronic means shall not be allowed beyond: 12.06.2018 (17:00 hrs)
- Members are requested to note that duly completed & signed Postal Ballot Form should reach Mr. Rakesh Kumar, Scrutinizer, Unit : CONCOR c/o Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi-110062, not later than 17:00 hours on 12.06.2018. Any Postal Ballot received from the Member beyond 12.06.2018 (17:00 hrs) shall not be considered valid and voting thereon by way of post or by electronic means will not be allowed beyond the above mentioned date and time.
- The Members can opt for only one mode of voting i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid.

Any member who has not received postal ballot form/User ID password may request for a duplicate thereof to the company at investorrelations@concorindia.com/ concor@beetalfinancial.com.

For further voting instructions, members may go through the instructions in the Postal Ballot Notice.

In case of any query(ies), you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for members available on the website http://www.evoting.nsdl.com/ 1800-222-990 or Mr. Abhishek Mishra, Assistant Manager, NSDL Trade World, A wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Lower Panel, Mumbai-400 013 at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in. Or abhishekm@nsdl.co.in or at following telephone Nos.: (022) 24994738/24994600.

For any queries/grievances, in relation to voting through post or electronic means, Members may contact Shri Puneet Mittal, M's Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., RTA of the Company - Email : concor@beetalfinancial.com, Telephone No.- 011-29961261-63.

The results of the e-voting/voting by ballot will be declared on or before 14.06.2018 and would be available on the website of the Company under intimation to NSDL & BSE.

**By order of the Board of Directors**  
For Container Corporation of India Limited  
Date: 10.05.2018  
Place: New Delhi  
Harish Chandra  
ED (Finance) & CS

**POLY MED** Medical Devices  
**POLY MEDICURE LIMITED**  
Regd. Office: 232B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate Phase III, New Delhi - 110 020  
CIN: L40300DL1995PLC066923, Phone: 011-26321889, Fax: 011-26321894  
Website: www.polymedicare.com, E-mail: investorcare@polymedicare.com

**STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2018**

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated		
		Quarter Ended		Year Ended		Year Ended		
		31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
		Audited	(Unaudited)	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from operations	14,502.15	12,929.37	12,661.21	52,406.88	45,970.78	53,605.37	47,521.60
2	Net Profit from ordinary activities after tax	2,305.57	1,653.56	1,617.03	7,019.83	5,619.93	7,059.39	5,512.53
3	Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items)	2,305.57	1,653.56	1,617.03	7,019.83	5,619.93	7,059.39	5,512.53
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.86	11.86	(3.33)	26.66	(13.32)	26.66	(13.32)
5	Equity paidup share capital	4,411.34	4,411.34	4,411.34	4,411.34	4,411.34	4,411.34	4,411.34
6	Earnings per share (Not annualised):							
	Basic (₹)	2.63	1.89	1.83	7.99	6.37	8.00	6.25
	Diluted (₹)	2.62	1.89	1.82	7.98	6.36	7.99	6.24

**Notes:**

- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 10, 2018. The financial results for the quarter and year ended March, 31st 2018 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
- According to the requirements of Ind AS and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, revenue for the corresponding previous quarter ended March 31st, 2017 and for the year ended March 31st, 2017, were reported inclusive of Excise Duty. The Government of India has implemented Goods and Service Tax ("GST") from July 01, 2017 replacing Excise Duty, Service Tax and various other indirect taxes. As per Ind AS 18, the revenue for the quarter and year ended March 31st, 2018, is reported net of GST and is not comparable with previous reported quarter.
- The Board of Directors of the Company have recommended dividend of Rs. 2 per share (40%) on equity shares of Rs. 5 each for the Financial year 31.03.2018 for approval of shareholders.
- The Board of Directors have appointed Mr. Alessandro Balboni (DIN 08119143), an Italian National as Additional Director to hold office till the date of ensuing Annual General Meeting.
- The Board of Directors of the Company have approved acquisition of a Company situated in Italy in similar line of Business through its wholly owned subsidiary.
- The above is an extract of the detailed format of audited standalone and consolidated Quarterly and yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the audited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company website www.polymedicare.com

**By order of the Board**  
Sd/-  
Himanshu Baid  
Managing Director

Place: New Delhi  
Date: 10.05.2018

**FOR SALE**  
**BSE LISTED NBFC**  
(Fully Compliant Non-deposit Accepting).  
please e-mail at [nbfcseillon@gmail.com](mailto:nbfcseillon@gmail.com)

**BHARAT GEARS LIMITED**  
Regd. Office & Works: 20 K.M., Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003, (Haryana)  
Tel.: +91 (129) 4288888  
Fax: +91 (129) 4288822-23  
Website: www.bharatgears.com  
E-mail: info@bglindia.com  
CIN: L29130HR1971PLC034365

**COMPANY NOTICE**

In terms of Provisions of Regulation 47(1)(a) in read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("LODR Regulations"), NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30<sup>th</sup> May, 2018 inter-alia; to consider, approve and take on record the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2018 pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.

For BHARAT GEARS LIMITED  
Sd/-  
Prashant Khattry  
Head (Legal) &  
Company Secretary

Place: Faridabad  
Dated: 10.05.2018

**INDIA GATE**  
BASMATI RICE

*India ki Puraani Aadat*

2 YEARS AGED RICE

YOUR CELEBRATIONS DESERVE something special.

**EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS OF KRBL LIMITED FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2018** (₹ in Lakhs except as stated otherwise)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31-03-2018	31-12-2017	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2017
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Income					
	(a) Revenue from operations	87,601	78,351	91,275	3,24,652	3,14,765
	(b) Other income	524	420	161	1,754	1,028
2.	Profit before Exceptional Items and Tax	16,154	17,185	15,876	65,501	53,756
3.	Net Profit for the period before Tax (PBT)	16,154	17,185	15,876	65,501	53,756
4.	Net Profit for the period after Tax (PAT)	9,528	12,299	10,932	43,444	39,940
5.	Total Comprehensive Income for the period	9,617	12,275	10,898	43,461	39,856
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share ₹1/-)	2,354	2,354	2,354	2,354	2,354
7.	Other Equity	—	—	—	2,26,436	1,88,378
8.	Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹1/- each)					
	Basic (₹)	4.05	5.22	4.64	18.46	16.97
	Diluted (₹)	4.05	5.22	4.64	18.46	16.97
9.	Debt Equity Ratio	—	—	—	0.04	0.07
10.	Debt Service Coverage Ratio	—	—	—	6.80	4.18
11.	Interest Service Coverage Ratio	—	—	—	15.61	10.66

**Key numbers of Audited Standalone Financial Results** (₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone				
	Quarter ended		Year ended		
	31-03-2018	31-12-2017	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2017
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Income					
(a) Revenue from operations	87,565	78,342	91,334	3,24,644	3,14,648
(b) Other income	523	404	52	4,007	607
Profit before tax	16,234	17,263	15,898	68,235	53,928
Profit after tax	9,608	12,377	10,954	46,179	40,112

**EBITDA Margin of 24.27%**

**PBT Margin of 20.07%**

**PAT Margin of 13.31%**

**By Order of the Board**  
For KRBL Limited  
Sd/-  
Anoop Kumar Gupta  
Joint Managing Director  
DIN: 00030160

Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi-110006  
CIN: L01111DL1993PLC052845, Email: investor@krblindia.com, website: www.krblrice.com, Tel.: +91-11-23968328, Fax: +91-11-23968327

Place: Noida, Uttar Pradesh  
Date: May 10, 2018

**NOTE:**  
The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's website viz. www.krblrice.com under the link investor relations.

# EXPRESS Careers

**SPUP**  
**SARDAR PATEL UNIVERSITY OF POLICE, SECURITY & CRIMINAL JUSTICE, JODHPUR**  
(Government of Rajasthan)

F.2 (93)/Estt./SPUP/2018/ Appointment/ Date: 09.05.2018

**ADVERTISEMENT FOR THE POST OF VICE-CHANCELLOR UNDER THE PROVISIONS OF SPUP ACT, 2012**

Applications are invited for the post of Vice-Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur. Applicants are advised to send their Bio-Data, in the prescribed format, by post/e-mail so as to reach to The Chairman, Selection Committee, C/o No. 243, 2<sup>nd</sup> Floor, Police Headquarters, Lal Kothi, Jaipur - 302015, E-mail: cmsec@policeuniversity.ac.in on or before 5.00 pm on 08.06.2018. The appointment as Vice-Chancellor shall be for a period of 3 years or till attaining the age of 70 years, whichever is earlier. The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government from time to time.

The candidates shall download the standard format of CV from the University website: www.policeuniversity.ac.in. For further details, candidates may visit the University website.

**REGISTRAR**

**By order of the Board of Directors**  
For Container Corporation of India Limited  
Date: 10.05.2018  
Place: New Delhi  
Harish Chandra  
ED (Finance) & CS

## शीला फोम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - भी-45, पीएच विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092  
 कॉर्पोरेट कार्यालय: 37/2, साईट IV, साहिबाबाद इन्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, यू.पी. 201010  
 फोन: +91-120-4162200 सीआरएल: U74899DL1971PLC005679  
 वेबसाइट: www.shelafoam.com ई-मेल: iquebal.ahmad@shelafoam.com

### सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक अन्य विषयों के साथ - साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदित करने के लिए दिनांक 18 मई, 2018 दिन शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।

कृते शीला फोम लिमिटेड  
 हस्ता/—  
 (श्री. इकबाल अहमद)  
 दिनांक : 10.05.2018  
 कंपनी सचिव

## U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LTD.

Office of the Dy. Project Manager, Mechanical Unit-1,  
 Aishbagh, Lucknow - 226 004. Phone : 2266375, Mob. : 8756973146

No. 160/11-M/UM/18-19 **Notice Inviting E-Tender Dt. 10/05/2018**

E-tenders are here by invited on behalf of U.P State Bridge Corporation Limited for the supply of Rolled Steel Joists (ISBM) from SAIL make/ISI mark as per IRC Code IS-800 from manufacture/s/ Steel traders who have registered in GSTIN, for supply of the following material on rate basis.

Sl. No.	Description of Material (F.O.R. Lucknow at our workshop)	Description	Date	Time
1.	Supply of Rolled Steel Joist (ISBM) Size : 150x75	Document downloading start date Document downloading end date Online bid submission closing date Bid opening date	11.05.2018 17.05.2018 17.05.2018 18.05.2018	9:00 a.m. 5:00 p.m. 5:00 p.m. 3:00 p.m.

**Note: (1)** Tender documents are available a website [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) which can be downloaded. **(2)** Cost of tender document Rs. 5000+GST 18 % i.e. total cost 5900.00 in the form of demand draft in the favour of "U.P State Bridge Corporation Ltd." Payable at Lucknow to be submitted in separate envelop along with hard copy of tenders on as before date of submission.

(Ashok Tiwari), Dy. Project Manager (M)

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC  
 Address: 75, Rehmat Manzil,  
 Veer Narain Road, Churchgate,  
 Mumbai - 400020

Motilal Oswal Securities Ltd.  
 Address: 2nd floor, Palm Spring Centre  
 Next to Amtek, Link Road, Malad (W)  
 Mumbai 400064.

"We refer to the below Public Notice in connection with transfer of the Depository Business, which was published in Financial Express - All Editions on 26th March, 2018. We wish to reiterate to the demat account holders of Abu Dhabi Commercial Bank PJSC of the available options as outlined below. Please note that failure to issue a written election by the demat account holder by 25th May 2018 shall be deemed an election to continue as the client of Motilal Oswal Securities Limited."

**NOTICE FOR TRANSFER OF DEPOSITORY BUSINESS**

This is to inform to all our demat account holders that we, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (hear-in-after called "Transferor Participant") having SEBI registration no. IN-DP-111-2015 and NSDL DP ID (S) IN301838, have decided to transfer the depository business to Motilal Oswal Securities Ltd. (hear-in-after called "Transferee Participant") having SEBI registration no. IN DP NSDL 152 2000 and NSDL DP ID(S) IN301862. Accordingly, demat account holders of Transferor Participant shall have the right to elect in writing any one of the following options and the same needs to be elected on or before 25th May 2018.

It is hereby informed that the demat account holders of Transferor Participant shall have the right to elect in writing either (i) to continue as the client of the Transferee Participant on the existing terms and conditions with us; or (ii) to terminate the existing arrangement with Transferor Participant and to provide the details of the new Participant selected by them along with the application for closing the account for shifting all the securities held through Transferor Participant. Failure to issue such written election within the prescribed period as mentioned above shall be deemed an election by you to continue as the client of the Transferee Participant.

Further, after transfer of depository business to Transferee Participant, we Abu Dhabi Commercial Bank PJSC will initiate the process of closing our depository operations as a Depository Participant (DP) of National Securities Depository Limited (NSDL) (IN301838) with effect from 31st May 2018 (Date of Closing of operations).

The Transferee Participant relationship with demat account holders shall be bound by the existing agreement and no fresh / additional documents will be required.

For Abu Dhabi Commercial Bank PJSC  
 Neeraj Chandra  
 Sd/-  
 Date: 22nd March, 2018  
 Place: Mumbai

For Motilal Oswal Securities Ltd.  
 Naresh Gupta  
 Sd/-  
 Place: Mumbai

## हाजसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कापोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)  
 GST-07AAACH0632A12F

पंजीकृत कार्यालय हडको भवन, कोर-79, इंडिया इन्फोटेक सेंटर  
 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष (ईपीएचजीएफ) 011-24649610, 24648198  
 फैक्स नं. +91-(011)24615343, 24625306, वेबसाइट: www.hudco.org

## हाजसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)  
 GST-07AAACH0632A12F

पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर-79, भारत विकास केंद्र,  
 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष (ईपीएचजीएफ) 011-24649610-26  
 फैक्स: 011-24625306/25307/25308/25309/25310/25311/25312/25313/25314/25315/25316/25317/25318/25319/25320/25321/25322/25323/25324/25325/25326/25327/25328/25329/25330/25331/25332/25333/25334/25335/25336/25337/25338/25339/25340/25341/25342/25343/25344/25345/25346/25347/25348/25349/25350/25351/25352/25353/25354/25355/25356/25357/25358/25359/25360/25361/25362/25363/25364/25365/25366/25367/25368/25369/25370/25371/25372/25373/25374/25375/25376/25377/25378/25379/25380/25381/25382/25383/25384/25385/25386/25387/25388/25389/25390/25391/25392/25393/25394/25395/25396/25397/25398/25399/25400/25401/25402/25403/25404/25405/25406/25407/25408/25409/25410/25411/25412/25413/25414/25415/25416/25417/25418/25419/25420/25421/25422/25423/25424/25425/25426/25427/25428/25429/25430/25431/25432/25433/25434/25435/25436/25437/25438/25439/25440/25441/25442/25443/25444/25445/25446/25447/25448/25449/25450/25451/25452/25453/25454/25455/25456/25457/25458/25459/25460/25461/25462/25463/25464/25465/25466/25467/25468/25469/25470/25471/25472/25473/25474/25475/25476/25477/25478/25479/25480/25481/25482/25483/25484/25485/25486/25487/25488/25489/25490/25491/25492/25493/25494/25495/25496/25497/25498/25499/25500/25501/25502/25503/25504/25505/25506/25507/25508/25509/25510/25511/25512/25513/25514/25515/25516/25517/25518/25519/25520/25521/25522/25523/25524/25525/25526/25527/25528/25529/25530/25531/25532/25533/25534/25535/25536/25537/25538/25539/25540/25541/25542/25543/25544/25545/25546/25547/25548/25549/25550/25551/25552/25553/25554/25555/25556/25557/25558/25559/25560/25561/25562/25563/25564/25565/25566/25567/25568/25569/25570/25571/25572/25573/25574/25575/25576/25577/25578/25579/25580/25581/25582/25583/25584/25585/25586/25587/25588/25589/25590/25591/25592/25593/25594/25595/25596/25597/25598/25599/25600/25601/25602/25603/25604/25605/25606/25607/25608/25609/25610/25611/25612/25613/25614/25615/25616/25617/25618/25619/25620/25621/25622/25623/25624/25625/25626/25627/25628/25629/25630/25631/25632/25633/25634/25635/25636/25637/25638/25639/25640/25641/25642/25643/25644/25645/25646/25647/25648/25649/25650/25651/25652/25653/25654/25655/25656/25657/25658/25659/25660/25661/25662/25663/25664/25665/25666/25667/25668/25669/25670/25671/25672/25673/25674/25675/25676/25677/25678/25679/25680/25681/25682/25683/25684/25685/25686/25687/25688/25689/25690/25691/25692/25693/25694/25695/25696/25697/25698/25699/25700/25701/25702/25703/25704/25705/25706/25707/25708/25709/25710/25711/25712/25713/25714/25715/25716/25717/25718/25719/25720/25721/25722/25723/25724/25725/25726/25727/25728/25729/25730/25731/25732/25733/25734/25735/25736/25737/25738/25739/25740/25741/25742/25743/25744/25745/25746/25747/25748/25749/25750/25751/25752/25753/25754/25755/25756/25757/25758/25759/25760/25761/25762/25763/25764/25765/25766/25767/25768/25769/25770/25771/25772/25773/25774/25775/25776/25777/25778/25779/25780/25781/25782/25783/25784/25785/25786/25787/25788/25789/25790/25791/25792/25793/25794/25795/25796/25797/25798/25799/25800/25801/25802/25803/25804/25805/25806/25807/25808/25809/25810/25811/25812/25813/25814/25815/25816/25817/25818/25819/25820/25821/25822/25823/25824/25825/25826/25827/25828/25829/25830/25831/25832/25833/25834/25835/25836/25837/25838/25839/25840/25841/25842/25843/25844/25845/25846/25847/25848/25849/25850/25851/25852/25853/25854/25855/25856/25857/25858/25859/25860/25861/25862/25863/25864/25865/25866/25867/25868/25869/25870/25871/25872/25873/25874/25875/25876/25877/25878/25879/25880/25881/25882/25883/25884/25885/25886/25887/25888/25889/25890/25891/25892/25893/25894/25895/25896/25897/25898/25899/25900/25901/25902/25903/25904/25905/25906/25907/25908/25909/25910/25911/25912/25913/25914/25915/25916/25917/25918/25919/25920/25921/25922/25923/25924/25925/25926/25927/25928/25929/25930/25931/25932/25933/25934/25935/25936/25937/25938/25939/25940/25941/25942/25943/25944/25945/25946/25947/25948/25949/25950/25951/25952/25953/25954/25955/25956/25957/25958/25959/25960/25961/25962/25963/25964/25965/25966/25967/25968/25969/25970/25971/25972/25973/25974/25975/25976/25977/25978/25979/25980/25981/25982/25983/25984/25985/25986/25987/25988/25989/25990/25991/25992/25993/25994/25995/25996/25997/25998/25999/26000/26001/26002/26003/26004/26005/26006/26007/26008/26009/26010/26011/26012/26013/26014/26015/26016/26017/26018/26019/26020/26021/26022/26023/26024/26025/26026/26027/26028/26029/26030/26031/26032/26033/26034/26035/26036/26037/26038/26039/26040/26041/26042/26043/26044/26045/26046/26047/26048/26049/26050/26051/26052/26053/26054/26055/26056/26057/26058/26059/26060/26061/26062/26063/26064/26065/26066/26067/26068/26069/26070/26071/26072/26073/26074/26075/26076/26077/26078/26079/26080/26081/26082/26083/26084/26085/26086/26087/26088/26089/26090/26091/26092/26093/26094/26095/26096/26097/26098/26099/26100/26101/26102/26103/26104/26105/26106/26107/26108/26109/26110/26111/26112/26113/26114/26115/26116/26117/26118/26119/26120/26121/26122/26123/26124/26125/26126/26127/26128/26129/26130/26131/26132/26133/26134/26135/26136/26137/26138/26139/26140/26141/26142/26143/26144/26145/26146/26147/26148/26149/26150/26151/26152/26153/26154/26155/26156/26157/26158/26159/26160/26161/26162/26163/26164/26165/26166/26167/26168/26169/26170/26171/26172/26173/26174/26175/26176/26177/26178/26179/26180/26181/26182/26183/26184/26185/26186/26187/26188/26189/26190/26191/26192/26193/26194/26195/26196/26197/26198/26199/26200/26201/26202/26203/26204/26205/26206/26207/26208/26209/26210/26211/26212/26213/26214/26215/26216/26217/26218/26219/26220/26221/26222/26223/26224/26225/26226/26227/26228/26229/26230/26231/26232/26233/26234/26235/26236/26237/26238/26239/26240/26241/26242/26243/26244/26245/26246/26247/26248/26249/26250/26251/26252/26253/26254/26255/26256/26257/26258/26259/26260/26261/26262/26263/26264/26265/26266/26267/26268/26269/26270/26271/26272/26273/26274/26275/26276/26277/26278/26279/26280/26281/26282/26283/26284/26285/26286/26287/26288/26289/26290/26291/26292/26293/26294/26295/26296/26297/26298/26299/26300/26301/26302/26303/26304/26305/26306/26307/26308/26309/26310/26311/26312/26313/26314/26315/26316/26317/26318/26319/26320/26321/26322/26323/26324/26325/26326/26327/26328/26329/26330/26331/26332/26333/26334/26335/26336/26337/26338/26339/26340/26341/26342/26343/26344/26345/26346/26347/26348/26349/26350/26351/26352/26353/26354/26355/26356/26357/26358/26359/26360/26361/26362/26363/26364/26365/26366/26367/26368/26369/26370/26371/26372/26373/26374/26375/26376/26377/26378/26379/26380/26381/26382/26383/26384/26385/26386/26387/26388/26389/26390/26391/26392/26393/26394/26395/26396/26397/26398/26399/26400/26401/26402/26403/26404/26405/26406/26407/26408/26409/26410/26411/26412/26413/26414/26415/26416/26417/26418/26419/26420/26421/26422/26423/26424/26425/26426/26427/26428/26429/26430/26431/26432/26433/26434/26435/26436/26437/26438/26439/26440/26441/26442/26443/26444/26445/26446/26447/26448/26449/26450/26451/26452/26453/26454/26455/26456/26457/26458/26459/26460/26461/26462/26463/26464/26465/26466/26467/26468/26469/26470/26471/26472/26473/26474/26475/26476/26477/26478/26479/26480/26481/26482/26483/26484/26485/26486/26487/26488/26489/26490/26491/26492/26493/26494/26495/26496/26497/26498/26499/26500/26501/26502/26503/26504/26505/26506/26507/26508/26509/26510/26511/26512/26513/26514/26515/26516/26517/26518/26519/26520/26521/26522/26523/26524/26525/26526/26527/26528/26529/26530/26531/26532/26533/26534/26535/26536/26537/26538/26539/26540/26541/26542/26543/26544/26545/26546/26547/26548/26549/26550/26551/26552/26553/26554/26555/26556/26557/26558/26559/26560/26561/26562/26563/26564/26565/26566/26567/26568/26569/26570/26571/26572/26573/26574/26575/26576/26577/26578/26579/26580/26581/26582/26583/26584/26585/26586/26587/26588/26589/26590/26591/26592/26593/26594/26595/26596/26597/26598/26599/26600/26601/26602/26603/26604/26605/26606/26607/26608/26609/26610/26611/26612/26613/26614/26615/26616/26617/26618/26619/26620/26621/26622/26623/26624/26625/26626/26627/26628/26629/26630/26631/26632/26633/26634/26635/26636/26637/26638/26639/26640/26641/26642/26643/26644/26645/26646/26647/26648/26649/26650/26651/26652/26653/26654/26655/26656/26657/26658/26659/26660/26661/26662/26663/26664/26665/26666/26667/26668/26669/26670/26671/26672/26673/26674/26675/26676/26677/26678/26679/26680/26681/26682/26683/26684/26685/26686/26687/26688/26689/26690/26691/26692/26693/26694/26695/26696/26697/26698/26699/26700/26701/26702/26703/26704/26705/26706/26707/26708/26709/26710/26711/26712/26713/26714/26715/26716/26717/26718/26719/26720/26721/26722/26723/26724/26725/26726/26727/26728/26729/26730/26731/26732/26733/26734/26735/26736/26737/26738/26739/26740/26741/26742/26743/26744/26745/26746/26747/26748/26749/26750/26751/26752/26753/26754/26755/26756/26757/26758/26759/26760/26761/26762/26763/26764/26765/26766/26767/26768/26769/26770/26771/26772/26773/26774/26775/26776/26777/26778/26779/26780/26781/26782/26783/26784/26785/26786/26787/26788/26789/26790/26791/26792/26793/26794/26795/26796/26797/26798/26799/26800/26801/26802/26803/26804/26805/26806/26807/26808/26809/26810/26811/26812/26813/26814/26815/26816/26817/26818/26819/26820/26821/26822/26823/26824/26825/26826/26827/26828/26829/26830/26831/26832/26833/26834/26835/26836/26837/26838/26839/26840/26841/26842/26843/26844/26845/26846/26847/26848/26849/26850/26851/26852/26853/26854/26855/26856/26857/26858/26859/26860/26861/26862/26863/26864/26865/26866/26867/26868/26869/26870/26871/26872/26873/26874/26875/26876/26877/26878/26879/26880/26881/26882/26883/26884/26885/26886/26887/26888/26889/26890/26891/26892/26893/26894/26895/26896/26897/26898/26899/26900/26901/26902/26903/26904/26905/26906/26907/26908/26909/26910/26911/26912/26913/26914/26915/26916/26917/26918/26919/26920/26921/26922/26923/26924/26925/26926/26927/26928/26929/26930/26931/26932/26933/26934/26935/26936/26937/26938/26939/26940/26941/26942/26943/26944/26945/26946/26947/26948/26949/26950/26951/26952/26953/26954/26955/26956/26